

February 23, 2024

Corporate Relations
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai-4000 01
(Security Code : 534615)

The Manager (Listing Department)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051
(Symbol: NECCLTD)

Subject: Publication of Corrigendum to the Notice of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company to be held on Friday, March 08, 2024 at 1.00 P.M. (IST)

Dear Sir(s)

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper publication of the Corrigendum to the Notice of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company to be held on Friday, March 08, 2024 at 1.00 P.M. (IST) in the following newspapers: Financial Express (English) & Jansatta (Hindi), both dated February 23, 2024

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking You

For North Eastern Carrying Corporation Limited

(Sunil Kumar Jain)
Chairman & Managing Director

Encl: a/a

Indian Institute of Technology Guwahati
Guwahati-781039, Assam

Online Quotations Are Invited from Service Provider (IT Firms) to Conduct All India Based Computer Based Exam.

Tender ID: 2024_IITG_796933_1. For Details: [www.iitg.ac.in/iitg_tenders_all_AR\(IISII\)](http://www.iitg.ac.in/iitg_tenders_all_AR(IISII))

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF V S MATRIX PRIVATE LIMITED

1. Name of corporate debtor	V S Matrix Private Limited
2. Date of incorporation of corporate debtor	14-08-1999
3. Authority under which corporate debtor is incorporated/ registered	Registrar of Companies, New Delhi
4. Corporate Identity No./ Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U74890DL1999PT0040510
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	486 F I E Patparganj Delhi DL 110092
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	30-08-2019
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	30-04-2024 (as extended vide order dated 19-02-2023 by Hon'ble NCLT New Delhi Bench)
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as resolution professional	Bimal Kumar Sharma IBBI/PA-01/1P-P05542/017-18/10967
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	153-D, DDA Flats, Sakam Enclave, Vastak Vihar, Delhi 110056, sharma_bimal@gmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	venkatsr07@gmail.com GFA, Sector-16, Block-05, Sector-3, Patparganj, Sakam, Gurgaon, Haryana, India-122009
11. Last date for submission of claims	08-03-2024
12. Classes of claims, if any under clause (b) of sub-section (A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13. Name of Insolvency Professional identified to act as Authorized Representative of creditors in class (Three names for each class)	Not Applicable
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: www.ebi.gov.in Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the V S Matrix Private Limited on 30-08-2019 and directed the undersigned Resolution Professional to take steps de novo in the CIRP proceedings and comply with the requirements stipulated under the provisions and Regulations of the Code vide order dated 19-02-2023 by the Hon'ble NCLT New Delhi Bench. The creditors of V S Matrix Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof or before 08/03/2024 to the resolution professional mentioned against entry No. 10. All creditors shall submit their claims with proof in person by post and by electronic means. A financial creditor belonging to a class as listed against the entry No. 12, shall indicate choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of the class in Form CA. Submission of false or misleading proofs/claims shall attract penalties.

Date: 21-02-2024
Place: New Delhi
Bimal Kumar Sharma
Resolution Professional
(IBBI/PA-01/1P-P05542/017-18/10967)

STERLING GUARANTY & FINANCE LIMITED

(CIN: L65990MH1983PLC031384)
("SGFL" / TARGET COMPANY"/"TC")
Registered Office: Office No 3rd & 4th, 3rd Floor, The Centrum, Village Kuria Kiroli, Kuria (W), Mumbai-400 070, Maharashtra, India
Phone No. - +91- 22-2840019 / 29
Email: sterling.guaranty@gmail.com Website: www.sterling-guaranty.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (CID) on the Open Offer to the Shareholders of Sterling Guaranty and Finance Limited ("SGFL" or the "Target Company") under regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations")

Date	February 23, 2024
Name of the Target Company	Sterling Guaranty & Finance Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer for acquisition of up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety Nine Thousand Seven Hundred and Seventy-Six) Equity Shares, representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of Sterling Guaranty & Finance Limited (The Sterling or Target Company), at an offer price of Rs.1.10/- (Rupee One and Paise 10 Only) (Offer Price) including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment, by the Acquirer in accordance with the provisions of Regulations 3 (1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto.
Name(s) of the Acquirer and PAC with the Acquirer	Mr. Deepak Babulal Khawad (hereinafter referred to as "the Acquirer")
Name of the Manager to the offer	
Members of the Committee of Independent Directors ("CID")	Chairman: Mr. Bharat Bakshi Bhushan Member: Mr. Rajan Sevantilal Shah
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	IDC Members are the Independent Directors of the Target Company. None of them have entered into any other contract or have other relationship with the Target Company.
IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirer.
Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	No trading has been done by the IDC Members in the equity shares/ other securities of the Target Company since their appointment.
IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirer.
Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable - Acquirer is an Individual
Recommendation on the Offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	The IDC Members is of the view that the Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take an informed decision in the best interest.
Summary of reasons for recommendation	The IDC has reviewed the PA, the DPS, and the LOF issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer, in connection with the Offer. IDC recommends acceptance of the Offer made by the Acquirer at the Offer Price of Rs.1.10/- (Rupee One and Paise 10 Only) per equity share payable in cash in fair and reasonable based on the following reasons: 1. The Offer price appears to be reasonable considering that there is no major business activities in the Target Company. 2. The offer price of Rs. 1.10/- per fully paid up equity share offered by the Acquirer is equal to price paid by Acquirer in SPA along with an interest at the rate of 10% (ten percent) per annum for the period of 259 days i.e., Rs. 0.10 rounded off has been added to the price. To Sellers and for the shares to be acquired of Target Company. 3. The equity shares of the Target Company are in frequently traded shares within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. 4. The offer price of Rs. 1.10/- per fully paid up equity share offered by the Acquirer is higher than the Fair Value of equity share of the Target Company which is Rs.(1.45/-) (Negative One Rupees and Forty Five Paise) per Equity Share as certified by Cost Accountant and Registered Valuer, Bhavesh M Rathod, 12 D White Spring A wing, Royal Park Complex, Western Express Highway, Borivali East, Mumbai-400066, Maharashtra, India vide his valuation report dated June 05, 2023. 5. Keeping in view above facts IDC is of the opinion that Offer Price is fair and reasonable and in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified. 6. The shareholders are advised to independently evaluate the offer and take an informed decision, whether or not to tender their equity shares in the open offer. 7. Recommendation of IDC as submitted to stock exchanges may be accessed at the website of the Company. 1.1. "The Target Company submitted an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, returned the application citing a lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023 cancelling the Certificate of Registration of the Company." Further, pursuant to delay in receipt of cancellation letter of Registration from the RBI, resulting in delay of 259 days in making payment to the eligible shareholders, an interest at the rate of 10% (ten percent) per annum for the period of 259 days i.e., Rs.0.10 rounded off has been added to the price. Pursuant to above inter-alia for change in control and management of the Target Company, Pursuant to the pendency of the above-mentioned approval, there has been a delay in payment of consideration which has attracted interest @10.00% per annum. The Offer Price has been revised to Rs. 1.10/- (Rupees One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to Rs.18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four). For any queries or A copy of Letter of offer is available on website of the company i.e. www.sterling-guaranty.com , can e-mail to Manager to the offer PNB Investment Services Limited on mbd@pnbsl.com or to Registrar to offer Purva Sharegistry (India) Private Limited on: support@punvashare.com IDC would like to draw attention of the shareholders that post the Public Announcement dated March 15, 2023, the market price of the equity shares of the Target Company has increased the current market price of the equity shares of the Company is higher than the Offer Price.
Details of Independent Advisors, if any	None
Any other matter to be highlighted	For any queries or A copy of Letter of offer is available on website of the company i.e. www.sterling-guaranty.com , can e-mail to Manager to the offer PNB Investment Services Limited on mbd@pnbsl.com or to Registrar to offer Purva Sharegistry (India) Private Limited on: support@punvashare.com IDC would like to draw attention of the shareholders that post the Public Announcement dated March 15, 2023, the market price of the equity shares of the Target Company has increased the current market price of the equity shares of the Company is higher than the Offer Price.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.
Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

For Sterling Guaranty and Finance Limited
Sd/-
Mr. BHARAT BAKSHI BHUSHAN
Chairman-Committee of Independent Directors
DIN: 08423443

Place: Mumbai
Date: Feb 23, 2024

PRE-OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

STERLING GUARANTY & FINANCE LIMITED

(CIN: L65990MH1983PLC031384)
("SGFL" / TARGET COMPANY"/"TC")
Registered Office:Office No 3rd & 4th, 3rd Floor, The Centrum, Village Kuria Kiroli, Kuria (W), Mumbai-400 070, Maharashtra, India
Phone No. - +91- 22-2840019 / 29
Email: sterling.guaranty@gmail.com Website: www.sterling-guaranty.com

This Advertisement is being issued by PNB Investment Services Limited, on behalf of Mr. Deepak Babulal Khawad pursuant to regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety Nine Thousand Seven Hundred and Seventy-Six) Equity Shares, representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of Sterling Guaranty & Finance Limited (The Sterling or Target Company), at an offer price of Rs.1.10/- (Rupee One and Paise Ten Only) ("Offer Price") (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment). The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquiree has appeared in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) Mumbai Lakshadweep (Marathi) and (Mumbai Edition) on, March 23, 2023.

- The Offer Price is Rs. 1.10/- (Rupee One and Paise Ten Only) per equity share payable in cash ("Offer Price") (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment).
- Committee of Independent Directors ("CID") of the Target Company is of the opinion that the Offer Price of Rs.1.10/- (Rupee One and Paise Ten Only) per equity share offered by the Acquirer is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified. The recommendation of IDC is published in the aforementioned newspapers on February 23, 2024.
- The offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There was no competing offer to this Open Offer and the last date for making such competing offer has expired.
- The completion of dispatch of the Letter of Offer ("LOO") through electronic means to all the Public Shareholders of Target Company (holding Equity Shares dematerialised form) whose name appeared on the register of members on the identified date and who have registered their email ids with the Depositories and/or the Target Company, and the dispatch through physical means to all the public shareholders of the Target Company (holding Equity Shares in Physical form) whose name appeared on the register of members on the identified date was completed on February 19, 2024.
- Please note that a copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in and also on the website of Manager to the Offer, www.pnbsl.com and BSE Limited at www.bseindia.com. Further, in case of non-receipt of LOO, the public shareholders holding equity shares may participate in the offer by providing their application in plain paper to their Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure along with other details.
- Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for acceptance and Settlement of the Offer" on Point no. 7 at Page no. 21 of the Letter of Offer in relation to the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer
 - In case the Equity Shares are held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Offer by approaching their respective Broker/Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure along with other details as mentioned in Point 7.8 of the Letter of Offer.
 - In case the Equity Shares are held in dematerialised form: Eligible Person(s) may participate in the Offer by approaching their respective Broker/Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure along with other details as mentioned in Point 8 of the Letter of Offer.

In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer has been submitted to SEBI on February 20, 2024. We have received the final observations in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations from SEBI vide its Letter No. 'SEBI/HO/CFD/RD/CDCR/2/P/OW/22/114/1/2023' dated May 30, 2023 which have been incorporated in the LOO.
Any other material change from the date of PA: The Target Company submitted an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, returned the application citing a lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023 cancelling the Certificate of Registration certificate of the Company. Further, pursuant to delay in receipt of cancellation letter of Registration from the RBI, resulting in delay of 259 days in making payment to the eligible shareholders, an interest at the rate of 10% (ten percent) per annum for the period of 259 days i.e., Rs 0.10 rounded off has been added to the price.

Amendments to LOF-
The terms used but not assigned to this corrigendum shall have the same meaning ascribed to them in the LOF dated February 16, 2024. Cover page point 2 shall be read as below:
Pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. To the best of the knowledge of the Acquirer, there are no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. However, the Offer would be subject to all statutory approval(s) as may be required and/or may subsequently become necessary to acquire at any later date this Offer shall be subject to receipt of such approval(s), necessary applications for such approvals shall be made. For more details regarding the statutory and other approvals for the Open Offer, please refer to the Paragraph 7.4 titled as 'Statutory approvals and conditions of the Offer' at page 21 of the Letter of Offer.
Under head A. Risks relating to Underlying Transaction Point 1(a) on Page no.3 shall be read as below:
Receipt of all statutory approvals as set out in Paragraph 7.4 titled as 'Statutory Approvals and conditions of the Offer' at page 21 of this Letter of Offer and those which become applicable prior to the completion of this Offer.
Under head B. Risks relating to Underlying Transaction Point 2 on Page no.3 shall be read as below:
As on the date of this Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirer, there are no statutory approvals required to acquire the Equity Shares that are validly tendered pursuant to this Offer or to complete this Offer. For further details kindly refer to Paragraph 7.4 titled as 'Statutory Approvals and conditions of the Offer' at page 21 of this Letter of Offer. However, if any other statutory approvals are required prior to the completion of this Offer, then this Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals that may become applicable later.
Paragraph 7.4.1 shall be read as below:

The Target Company is registered with RBI as a NBFC with Registration No. 13.01229' vide RBI certificate dated April 20, 1999. However vide Letters dated 26.03.2018 and 25.10.2021, the Target Company has made application to RBI for surrender of COR which was pending. Pursuant to an application after the date of Public Announcement, an application was made to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Four) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents. The offer had been revised pursuant an application to the Reserve Bank of India (RBI) seeking approval for a change in Ownership, Control, and Management. However, the RBI, through letter DoS.CO.RSG No. S1923/02.13.001/2023-24 dated June 13, 2023, which was returned citing lack of supervisory comfort as the reason as the Target Company had already made application to the RBI for cancellation of the Registration certificate. Subsequently, the RBI issued an order on December 15, 2023, cancelling the Certificate of Registration of the Company. As on the date of the Letter of Offer, to the best of knowledge and belief of the Acquirers, no other statutory approval(s) required for the purpose of this Offer. If any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
Point No. 3.2.4 shall in the LOF shall be read as:
3.2.4 The Acquirer has proposed to acquire from the Public Shareholders up to 16,99,776 (Sixteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of Rs.1.10/- (Rupee One and Ten Paise Only) (including interest at the rate of 10% (Ten Percent) per annum per Offer Share for the delay beyond the scheduled date of payment) and in pursuance of which the Offer Size stands revised to an amount of Rs. 18,69,754.00/- (Eighteen Lakhs Sixty-Nine Thousand Seven Hundred

ओएनजीसी Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

पूर्वी अपतटीय संपत्ति, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)

पूर्व-सोवियत मानदंड (एनजीसी) सीपीपी - एलक्यूएलसी के संश्लेषण और एलक्यूएलसी के अनुबंध के लिए 03 वर्ष (86 महीने) के लिए संश्लेषण की प्रतिक्रिया

ओएनजीसी, पूर्वी अपतटीय संपत्ति, काकीनाडा द्वारा 03 वर्षों (86 महीने) के लिए सीपीपी-एलक्यूएलसी उपकरणों के लिए संश्लेषण और एलक्यूएलसी सेवाएं प्रदान करने के लिए 03 वर्ष/86 महीने के लिए संश्लेषण को लागू करने के लिए प्रक्रिया प्रणाली सहित ऑफशोर प्रोसेस उपकरणों, प्लोटींग प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग (एलएफएसओ)/मोबाइल ऑफशोर प्रोसेसिंग इकाई (एनओपीसी) के लिए संश्लेषण और एलक्यूएलसी सेवाएं (ओ एफ एम) प्रदान करने में अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित और इच्छुक बोलीदाताओं से पीप्यूसी दस्तावेज जमा करने के लिए आमंत्रित करता है। दस्तावेजों की प्रारंभ की अंतिम तिथि पीप्यूसी के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन। दिपणनी (tenders.ongc.co.in पर लॉन्गटॉन करें। आवेदनक समता वाले समर्पित विज्ञापन ई-नेट - spgkakinada@ongc.co.in के माध्यम से दस्तावेज जमा कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, सीजीएम (पी), ई-मेल: spgkakinada@ongc.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग मोड)

सीपीटी एमएनएलसी के तहत (एनजेन) में ओरिएंटल कंटेनर (डीएससी) के लिए कंटेनर मरम्मत सुविधा की स्थापना के लिए (एकल पैकेज में) सूचीबद्ध निविदा के लिए ई-बidding प्रणाली की जाती है।

निविदा संख्या	CONAREA-III/Cont. Repair (DSO)/DAHEJ/2023
अनुमानित लागत	रु. 65,77,195/- (जीएसटी सहित) चार (4) वर्षों के लिए
बidding की तारीख (ऑनलाइन)	23.02.2024 को 15:00 बजे से 08.03.2024 को 16:00 बजे तक
जमा करने की बidding तिथि और समय	11.03.2024 को 17:00 बजे तक
सुलने की तिथि एवं समय	12.03.2024 को 15:30 बजे

पत्राचार मानदंड और अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.co.in या eprocure.gov.in या www.tenderwizard.com/CCL पर लॉग ऑन करें। बोलीदाताओं से अनुबंध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर जाएं। कार्यकारी निदेशक/लेटर-1

एसीआई विभाग, प्रधान कार्यालय, चेन्नै

इंजीनियर बैंक, जोकि सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक है, में हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, विद्युत्/आवृत्तिय एवं ई.के.के. के कारोबार संबंधी एकीकृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए पावर बीआई प्रीमियम पी 1 सम्बन्धित लाइसेंस की खरीद हेतु आरूपणी जारी किया है।

इच्छुक पार्टियां विवरण के लिए बैंक की वेबसाइट <https://www.Indianbank.in> या itenders@indianbank.in और GeM पोर्टल देखें।

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

जका मार्ग, नई दिल्ली-110002, फोन: +91 11 41204444 F: +91 11 41204000 dmi@dmihousingfinance.in U65923D1101PCT16373

(निचय 8 (1) देखें) कर्ज की सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जम्मेदार, प्राधिकृत अधिकारी में डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विवरण अतिरिक्त का प्रतिनिधित्व करने और पुनर्निर्माण तथा प्रतिक्रिया हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) समान नियम 3 के अंतर्गत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने हेतु दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को एक मॉडल जारी करके प्रतीक प्रतीक प्रदान करने वाली रीजियन का अंश प्रदान करने वाले प्रतिक्रिया, रिजर्व बैंक की वती चालू बंधन (गारंटी देने के तहत) (सह-अर्पण) को नोटिस में बताना जारी है। 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक नोटिस देने के दिनांक की तारीख में 60 दिनों के भीतर जमा करने के लिए कहा गया है।

अर्पण/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों द्वारा जमा गति की अद्यतनों के संकेत के कारण प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

उपसिडा उद्योग राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ई-निविदा सूचना

एलएनएनएन सुविधा प्रदान की जाती है, कि निम्नलिखित अतिरिक्त के अंतर्गत विकल्प/अनुसूचना / उद्योगिक कार्य हेतु सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपकरणों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों /नगर निगमों में कार्यरत कर्म/केन्द्रीय से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिसको उपलब्ध करने की सम्पत्ती निम्नवत् है—

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत (रु. लाख में)
1	Interlocking Tile Work at I.A. Etah, HJD Etah Distt. Etah.	269.04
2	Upgradation of Remaining Road in Sector A-2 at I.A. TDS City, Ghaziabad.	256.88
3	P/F Different Sinages works in Sectors of CD-2, Surajpur I.A. Distt. G.B. Nagar	139.56
4	Upgradation of Footpath & Kerb Stone along Road at I.A. Baghpat	137.29

निविदादाताओं द्वारा केवल शायरवादी की सूची प्रस्तुत निविदा प्रपत्रों में परिलिखित विवरण तक कार्यालय में जमा की जा सकती है। ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं का विवरण निम्नवत् है—

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत (रु. लाख में)
1	Interlocking Tile Work at I.A. Etah, HJD Etah Distt. Etah.	269.04
2	Upgradation of Remaining Road in Sector A-2 at I.A. TDS City, Ghaziabad.	256.88
3	P/F Different Sinages works in Sectors of CD-2, Surajpur I.A. Distt. G.B. Nagar	139.56
4	Upgradation of Footpath & Kerb Stone along Road at I.A. Baghpat	137.29

नोट:- निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर सहित दरें अंकित करें। जीएसटी/सीटी अलग से देय होगा।

निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की website: www.onlineupsidc.com पर स्थित ई-निविदा एवं यूजीएलसी की website: <http://tenderup.nic.in> पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेतु कार्यालय के सहायक प्रबन्धक (फिनिंग) के मोबाइल नं 9044191768 पर संपर्क किया जा सकता है।

महाप्रबन्धक (अपी), उपसिडा/औद्योगिक, कानपुर

MITSU CHEM PLAST LIMITED

Mitsu Chem Plast Limited ("Company" or "Issuer") was originally incorporated as "Mitsu Chem Private Limited" on September 23, 1988 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Thereafter, the name of our Company was changed to "Mitsu Chem Plast Private Limited", pursuant to a special resolution passed by the shareholders of our Company on May 11, 2016 and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name, was granted to our Company on May 25, 2016 by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Subsequently, our Company was converted into public limited company pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on May 11, 2016 and the name of our Company was changed to "Mitsu Chem Plast Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited Company dated June 8, 2016 was issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. The Corporate Identification Number of our Company is L25111MH1988PL048925. For further details about the Company, please refer to the section titled "General Information" beginning on page 47 of the Letter of Offer.

Registered Office: 325, Ganga Road, 3rd Floor, Din Dayal Upadhyay Marg, Mulund (West), Mumbai - 400 080, Maharashtra, India. Tel: +91 22 2592 0055 | Email: investor@mitsuchem.com | Website: www.mitsuchem.com | Corporate Identity Number: L25111MH1988PL048925

Contact Person: Anika Bhanushali, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTER OF OUR COMPANY: JAGDISH DEDHIA, SANJAY DEDHIA AND MANISH DEDHIA

ISSUE OF 15,09,075 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF MITSU CHEM PLAST LIMITED (THE COMPANY) FOR CASH AT A PRICE OF ₹144/- (RUPEES ONE HUNDRED AND FORTY FOUR ONLY) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹134/- (RUPEES ONE HUNDRED AND THIRTY FOUR ONLY) PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹21,73,06,800/- (RUPEES TWENTY ONE CRORE SEVENTY THREE LAKHS SIX THOUSAND AND EIGHT HUNDRED ONLY) ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF ONE (1) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY EIGHT (8) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON SATURDAY, FEBRUARY 17, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 192 OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.

Amount Payable per Right Equity Share	Face Value (₹)	Premium (₹)	Total (₹)
On Application	5.00	67.00	72.00
On one call as may be decided by the Board/ Rights Issue and Allotment Committee of the Board	5.00	67.00	72.00
Total	10.00	134.00	144.00

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER DATED FEBRUARY 13, 2024 (THE "LETTER OF OFFER" / "LOF" AND THE ABRIDGED LETTER OF OFFER (THE "ALOF")): NOTICE TO INVESTORS (THE "CORRIGENDUM")

This is with reference to the Letter of Offer ("LOF") filed by the Company with the BSE (the "Stock Exchange") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (for information purpose only). Applicants / Investors may note the following modifications to the disclosures in the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, Application Form, Rights Entitlement Letter and the same may be taken as updated and included in the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, Application Form, Rights Entitlement Letter.

At the time of filing the Letter of Offer, the Issue Closing Date was decided to be Monday, March 04, 2024. However, as per the powers stated in the Letter of Offer to the Board of directors and Rights Issue and Allotment Committee (authorised by the Board of directors of the Company) to extend the said date of closing of rights issue offer period as may be determined by them from time to time, the Rights Issue and Allotment Committee, in their meeting held on Thursday, February 22, 2024 have decided to extend the issue period by one (1) day for the benefit of investors and hence, the issue closing date shall be read as "Tuesday, March 05, 2024".

The Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer, including Application Form and Rights Entitlement Letter to be modified in terms of Issue Closing Date and the same is modified to be read as "Tuesday, March 05, 2024".

The disclosure of Issue Closing Date in Letter of Offer will be modified as above and would be read as follows in all of the pages stated below:

- On the front page i.e. Cover Page under the head "ISSUE PROGRAMME" – Issue Closes on **Tuesday, March 05, 2024**.
- On page No. 5 in Section I - DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS under the Issue Related Terms the definition of "Issue Closing Date" shall be revised as "**Tuesday, March 05, 2024**".
- On page No. 46 in Section III- INTRODUCTION under the "Issue Schedule", the Issue Closing date shall be revised as "**Tuesday, March 05, 2024**".
- On page No. 50 in Section III- INTRODUCTION under the head "General Information" in "Issue Schedule", "Issue Closing Date" shall be revised as "**Tuesday, March 05, 2024**".
- On page No. 203 in Section VII- ISSUE INFORMATION under the head "Terms of the Issue" in "PROCESS OF MAKING AN APPLICATION IN THE ISSUE" under "Last date for Application", the last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is **Tuesday, March 05, 2024**, i.e., Issue Closing Date.....
- On page No. 211 in Section VII- ISSUE INFORMATION under the head "Terms of Issue" sub head "THE ISSUE SCHEDULE", "Issue Closing Date" shall be revised as "**Tuesday, March 05, 2024**".

Date: February 22, 2024
Place: Mumbai

For MITSU CHEM PLAST LIMITED
Sd/-
Mr. Manish Dedhia
Chief Financial Officer

अचल संपत्तियों का वर्णन

सम्पत्तियों के सभी अंश अ या गति प्राप्त होने के बिना एवं नॉट ए-40-ए (उत्तरी क्षेत्र), लॉकर प्राइवेट प्रोपर्टी, सुदि/फ्लैट नं. एलसी-1 (बिना छत अधिकार के), सालारस रोड/डीसी 5, आचार्यराय स्कॉलर फौंडेशन कॉलोनी, कालवारा रोड, जयपुर, राजस्थान 302013 में स्थित है।

दिनांक: 21/02/2024, स्थान: जयपुर, राजस्थान

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

E-Stamping Certificate Number for the Document is IN-P88806838974411W JOINT AFFIDAVIT

We, Vinay Bhushan Jhamb aged 65 years, son of Sh. Prem Sagar Jhamb so of Sh. Sardari Lal Jhamb, Resident of 51, Sukhmani Enclave, Canal Road, Ludhiana, Adarsh Jhamb aged 60 years son of Sh. Prem Sagar Jhamb son of Sh. Sardari Lal Jhamb, Resident of Street No. 1, Shakti Nagar, Fazilka and Navtej Jhamb aged 55 years, son of Sh. Prem Sagar Jhamb son of Sh. Sardari Lal Jhamb, resident of Street No. 1, Shakti Nagar, Fazilka, do hereby solemnly declare and affirm as under:-

1. That the deponents have jointly moved an application to the Commissioner of Police, Ludhiana vide PGD No. 287318/284358 dated 09-01-2024 and the same has been disposed off with observations by the police through its approval / acceptance of 13.02.2024, as such in continuance with the same and in compliance to the same, we all the deponents do hereby submit this joint affidavit for the purpose of issuing a public notice in the newspaper for the information of the general public detailing therein that one of us Vinay Bhushan Jhamb had issued blank signed stamp papers between 09-15 July, 2020 under his signatures as well as under the signatures of his wife Daisy Jhamb in which it was clearly mentioned on the stamp papers "Agreement for land at village Korianwali, Malout Road, Fazilka" and Plot 4 kanal near Vijay colony, Fazilka" respectively, and all the said blank signed stamp papers were handed over to the other two deponents namely Adarsh Jhamb and Navtej Jhamb and the same were never returned back by the said deponents to Vinay Bhushan Jhamb or Daisy Jhamb, as such through this public notice, it is notified that any and everybody who claims any right or concern on the basis of the said blank signed papers signed by Vinay Bhushan Jhamb & his wife Daisy Jhamb, may come forward by the 7th of March 2024, as it has been stated by the custodians of the said blank stamp papers namely Adarsh Jhamb and Navtej Jhamb that they have never used the same but have misplacred the same, as such to rule out the same, this public notice is being issued for the information of general public to come forward and raise any claim or concern, if any, on the basis of the alleged blank signed stamp papers and it is further notified that in case no claim or concern is raised by the 7th of March 2024, Vinay Bhushan Jhamb or his wife Daisy Jhamb will not be responsible in any manner and if any claim or concern is raised by the 7th of March 2024, then it is Adarsh Jhamb and navtej Jhamb, who will be liable to satisfy the same. So this public notice is issued for the information of general public.

9915595677 - VIKAS RANA

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

(CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

कार्यालय: 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ बंगला, चण्डी-47, मालवीय मार्ग, जयपुर-302017, उदेलीफोन: 0141-4750000

परिशिष्ट IV (दोनों नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जम्मेदार, प्राधिकृत अधिकारी में डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विवरण अतिरिक्त का प्रतिनिधित्व करने और पुनर्निर्माण तथा प्रतिक्रिया हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने हेतु दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को एक मॉडल जारी करके प्रतीक प्रतीक प्रदान करने वाली रीजियन का अंश प्रदान करने वाले प्रतिक्रिया, रिजर्व बैंक की वती चालू बंधन (गारंटी देने के तहत) (सह-अर्पण) को नोटिस में बताना जारी है। 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक नोटिस देने के दिनांक की तारीख में 60 दिनों के भीतर जमा करने के लिए कहा गया है।

अर्पण/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों द्वारा जमा गति की अद्यतनों के संकेत के कारण प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्राप्त कर लिया है।

अर्पण को विवरण रूप से एवं उन संपत्तियों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रतिक्रिया संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 15, 99, 879/- (रुपये पन्द्रह लाख निचयन हेतु आठ सौ उन्पत्ती मात्र) दिनांक 18 सितम्बर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से अगे आगे कर्ज प्रतिक्रिया/सह-अर्पण/बैंककर्ताओं/जमानदारों और जमानदारों को यह सूचना दी जाती है कि अयोध्यादेवस्थी ने प्रतिनिध हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ प्रति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक